

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Friday, 15 March 2024 / 25 Phalgun 1945 (Saka)

No. 67

11.21 A.M.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 11.22 A.M. Special Mention (Rule-280) :

The Chair directed that the matters raised by the following Members under Rule-280 be treated as read :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Shri Ajay Dutt | 5. Shri Sanjeev Jha |
| 2. Shri Ajay Mahawar | 6. Shri Abhay Verma |
| 3. Shri Anil Kumar Bajpai | 7. Shri Naresh Yadav |
| 4. Shri Akhilesh Pati Tripathi | 8. Shri Rajendra Pal Gautam |

2. 11.22 A.M. The Chair greeted Shri Parlad Singh Sawhney, Hon'ble Member on his birthday.

3. 11.22 A.M. Discussion on Resolution :

Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip initiated discussion on the Resolution moved by him and adopted by the House on 09.03.2024 regarding "*serious problems related to water supply and maintenance of sewage lines being faced by the residents of Delhi*".

He also moved a Resolution with the leave of the House (*Text of Resolution enclosed*).

The following Members participated in the discussion :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Shri Rajesh Gupta | 6. Shri Naresh Yadav |
| 2. Shri Durgesh Kumar | 7. Shri Bhupinder Singh Joon |
| 3. Smt. Raj Kumari Dhillon | 8. Shri Vijender Gupta |
| 4. Shri Abhay Verma | 9. Shri Jarnail Singh |
| 5. Shri Rituraj Govind | |

Smt. Atishi, Hon'ble Minister of Water replied to the discussion.

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

In pursuance of the Resolution, sitting of the House was convened for Friday, 22nd March, 2024.

4. 01.15 P.M. Short Duration Discussion (Rule-55) :

Shri Madan Lal, Hon'ble Member initiated discussion on '*Acute shortage of medicines and free testing in various Hospitals, Mohalla Clinics and Dispensaries of Delhi Government due to alleged indifferent attitude of some concerned officers and need of urgent remedial measures in this regard*'.

01.19 P.M. : Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair

The following Members participated in the discussion :

1. Shri Rituraj Govind
2. Shri Akhilesh Pati Tripathi
3. Shri Mohan Singh Bisht
4. Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip

He also moved a Resolution with the leave of the House (*Text of Resolution enclose*).

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister of Health replied to the discussion.

5. 02.05 P.M. Calling Attention (Rule-54) :

Shri Naresh Balyan, Hon'ble Member called the attention of the House towards "*requirement of No Objection Certificate from DDA or concerned authority for installation of electric meters in the unauthorized colonies of Delhi*".

Shri Gulab Singh, Hon'ble Member also expressed his views.

6. 02.13 P.M. The Chair adjourned the House upto 11.00 A.M. on Friday, 22 March 2024.

Delhi
15 March, 2024

Raj Kumar
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 / फाल्गुन 25, 1945 (शक)

संख्या-67

11.21 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 11.22 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के तहत उठाये गये मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये :-

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 श्री अजय दत्त | 5 श्री संजीव झा |
| 2 श्री अजय महावर | 6 श्री अभय वर्मा |
| 3 श्री अनिल कुमार बाजपेयी | 7 श्री नरेश यादव |
| 4 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी | 8 श्री राजेंद्र पाल गौतम |

2. 11.22 बजे

अध्यक्ष महोदय ने श्री प्रलाद सिंह साहनी, माननीय सदस्य को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी।

3. 11.22 बजे

संकल्प पर चर्चा :

श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक द्वारा "दिल्ली के निवासियों को हो रही जल आपूर्ति एवं सीवेज लाइनों के रख-रखाव से संबंधित गंभीर समस्याओं" के संबंध में दिनांक 09 मार्च 2024 को प्रस्तुत और सदन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

उन्होंने सदन की अनुमति से संकल्प भी प्रस्तुत किया। (संकल्प का पाठ संलग्न है।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 श्री राजेश गुप्ता | 6 श्री नरेश यादव |
| 2 श्री दुर्गेश कुमार | 7 श्री भूपेंद्र सिंह जून |
| 3 श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों | 8 श्री विजेंद्र गुप्ता |
| 4 श्री अभय वर्मा | 9 श्री जरनैल सिंह |
| 5 श्री ऋतुराज गोविंद | |

श्रीमती आतिशी, माननीय जल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

संकल्प के अनुसरण में, सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2024 को बुलाई गई।

4. 01.15 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):

श्री मदन लाल, माननीय सदस्य ने "कुछ संबंधित अधिकारियों के कथित उदासीन रवैये के कारण दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिकों और डिस्पेंसरियों में दवाओं और मुफ्त परीक्षण की भारी कमी और इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

01.19 बजे : श्रीमती राखी बिड़ला, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री ऋतुराज गोविंद
2. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
3. श्री मोहन सिंह बिष्ट
4. श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक

उन्होंने सदन की अनुमति से संकल्प भी प्रस्तुत किया। (संकल्प का पाठ संलग्न है।)

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. 02.05 बजे

ध्यानाकर्षण (नियम-54) :

श्री नरेश बाल्यान, माननीय सदस्य ने "दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनिजों में बिजली के मीटर लगाने के लिए जी.डी.ए या संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता" के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गुलाब सिंह, माननीय सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

6. 02.13 बजे

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

RESOLUTION

On 09.03.2024, this House had passed a resolution regarding rising sewer and water problems across Delhi and giving responsibility to the Chief Secretary to resolve these issues.

This House appreciates the fact that in the last one week several grievances have been taken up in a speedy manner and brought relief to residents.

This House also finds that complaints from some of the members were not very specific and hence could not be resolved. However, many of them have orally expressed their grievances in the Assembly during Rule 280 and other discussions. Members are requested to give their specific grievances to the Hon'ble Speaker and the Hon'ble Water Minister.

Whereas there has been some relief to some residents of Delhi in the last one week, however many grievances still remain and these grievances need to be resolved within next one week.

Even for the grievances that have been resolved, there is a need to work on a long-term resolution of these problems.

Therefore, in the interests of the people of Delhi this House resolves that:

1. The Chief Secretary shall continue to monitor and supervise the short term and long term resolution of water and sewer problems across Delhi.
2. Since Delhi faces shortage of water supply, especially in the summer months, a detailed plan will be made for augmentation of water resources from ground water. This will be done on a war footing to ensure relief to the people of Delhi from this Summer itself.
3. Since many complaints have been received that tankers have been reduced, the water tankers shall be brought back to earlier numbers. Chief Secretary shall reduce number of tankers, only after consultation with area MLAs.
4. Since many parts of Delhi face sewer overflows due to absence of storm water drains, the Chief Secretary will coordinate with MCD to resolve this problem.
5. Till resolution of issue of storm water drains is done, an estimation needs to be done of the number of sewer cleaning machines and the frequency with which sewer cleaning and desilting needs to be done to prevent sewer overflows across Delhi. Adequate number of small and large machines need to be available for this purpose with Delhi Jal Board.
6. Desilting of all trunk and peripheral sewers needs to be done in a time bound manner.
7. Timelines need to be provided regarding the award and completion of works that have been reported in the 'Action Taken Report' as being 'in the tendering process'.
8. Chief Secretary to ensure better coordination between Delhi Jal Board, Urban Development Department and Finance, so that critical utilities like water and sewerage do not get affected.
9. It is appreciable that Delhi Jal Board has worked on a war footing in the last 5 days to resolve grievances being faced by the residents of Delhi; however, strong action needs to be taken against officers who have not done their duties in resolving water and sewerage related grievances of the people of Delhi in the last few months.
10. The Chief Secretary shall be responsible for actioning all the aforementioned issues, as well as the pending grievances. A sitting of the House be called on 22.03.2024, where the Chief Secretary will provide a report on the same.

संकल्प

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि:

यह सदन गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभिन्न मोहल्ला क्लीनिक, औषधालय और अस्पताल जरूरी मुफ्त दवाईयों, उपभोग्य सामग्री और मुफ्त लेबोरेटरी टेस्ट की भारी कमी का सामना कर रहे हैं,

यह सर्वविदित तथ्य है कि गरीब लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के इन मोहल्ला क्लीनिकों, औषधालयों और अस्पतालों पर पूरी तरह निर्भर हैं क्योंकि वे प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते,

यह बहुत चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों, औषधालयों और अस्पतालों में मुफ्त दवाईयों और लेबोरेटरी टेस्ट की अनुपलब्धता से गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इससे लोगों के हताहत होने का खतरा है तथा शहर में दहशत भी फैल सकती है, जो अभी-अभी महामारी से उभरा है,

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सदन संकल्प करता है कि:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों, औषधालयों और अस्पतालों में दवाईयों, उपभोग्य सामग्रियों, प्रयोगशाला परीक्षणों और अन्य सुविधाओं की कमी/अनुपलब्धता की समस्या को युद्ध स्तर पर तुरंत हल किया जाए,
2. उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे,
3. यह सदन मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के भीतर इन कमियों को दूर करने का निर्देश देता है, जिस दौरान वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे,
4. इस मामले पर आगे विचार करने के लिए शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2024 को सुबह 11 बजे दिल्ली विधान सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
